

(Corporate Contracts Department) Sahar Receiving Station, Near Hotel Leela, Andheri (E), Mumbai 400 059, Maharashtra, India (Board Line: 022-67173188) CIN: L28020MH1910PLC000567

## NOTICE INVITING EXPRESSION OF INTEREST

e Tata Power Company Limited hereby invites Expression of Interest for Supply of drant & Jockey pump complete assembly with motor and supervisory services req ing installation and commissioning at Mundra Thermal Power plant (MTP3), Mu

Details of pre-qualification requirements, bid eccurity, purchasing of tender docummay be downloaded from the tender section of our website https://www.tatapower.com/tender/tenderlist.asox).

parties willing to participate in above tender may submit their Expression of along with the tenderfee for issue of bid document latest by 11<sup>th</sup> September 2023.

## ONE POINT ONE SOLUTIONS LIMITED

## NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

untion will have rejective depository personal. The interpret and addresses and sold was a final form of the control of the c

the AGMA statements of surplimed bein emil addresses is provided in the notice or stretch.

In 100 of the Companies AGZ 2013, the Company is provided by the notice or stretch.

In 100 of the Companies AGZ 2013, the Company is provided by the notice of the Companies AGZ 2013, the Company is energiped for stretch or company is an experient of the company is an experient of the company is an experient of the company is a sported the AGZ 2013, and Company is a company in a company is a provided to the company is a sported to the company is a company in a company in a company in a company is a company in a company in a company in a company is a company in a company

Aversus, 460 on Brown (1997), strendflife. Approximation for Register of Members: Boundinal Owners are on oil of data Lee Appears, whose new agreement in the Register of Members: Boundinal Owners are on oil of data Lee Appears (1997), and the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain Global for the Register, 1997 beginners, 225 to Frisky; 25° September, 25° Septe

empowdragementer.00.III.

mbers who have casted their vote through remote e-voting may also attend the Meet
be eligible to cast their vote(s) again.

International pages. The second section is a second section of the second section is a second section of the section is section in the section in the section in the section is section in the section in the section in the section is section in the section in the section in the section is section in the section in the section in the section is section in the section in the section in the section is section in the section in the section in the section is section in the section in the section in the section is section in the section in the section in the section is section in the section in the section in the section is section in the section in the section in the section is section in the section in the section in the section is section in the section in the section in the section in the section is section in the sectio

der of the Board of Di

SEPC Limited

NOTICE OF 23RD ANNUAL GENERAL MEETING. E-VOTING AND BOOK CLOSURE

# NOTICE UP 28/10 ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING AND BOOK CLOSURE. Notice is hereby given that the 23rd Annual General Meeting (23rd A6M) of the Members of the Company is scheduled to be held on Thursday, September 21, 2023 at 11,00 A.M. through Video Conferencing ("VC") Other Audio Visual Means ("OAM") in complance with all applicable provisions of the Companies Act, 2013 (the Act) and the Rules made thereunder and the EBEI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (Listing Regulations, 2014) (Listing Regulations), are with Ministry of Corporate Affairs (MCA) Circulars issued in this regard to transact the businesses set forth in the Notice convenieng the A6M. The members will be able to stant the A6M through VC' OAVM at www.evolinginda.com. Members participating in the meeting through VC' OAVM facility shall be reckned for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act 2013.

Companies Act 2013.

In compliance with the relevant circulars, the Notice of the 23rd AGM and Annual Report 2022- 2023 has been sent on August 30, 2023 to the members whose e-mail addresses are religistent with the CompanyDepository Participant(s). The altoresaid documents are also available on the vestile of the Company Le http://www.sepc.in/mestors-annualreport.aspx and the website of the Stock Exchanges where the startes of the Company are Isted 1i.e., https://www.bseindia.com and https://www.urseindia.com also on the website of COSL

Intelligence was dependent and the second process and the evelose of the Stock Exchanges where the shares of the Company are Island Le., Inttps://www.bseindu.com and https://www.nseindu.com also on the website of LOSL. Inttps://www.bseindu.com and https://www.nseindu.com also on the website of LOSL. Inttps://www.bseindu.com and https://www.nseindu.com also on the website of LOSL. Intelligence was the company are Island Le. Inttps://www.bseindu.com and https://www.nseindu.com and https://www.nseindu.com and https://www.nseindu.com and https://www.nseindu.com.and.com.an

Bill September 1, Sector to September 1, Sector to September 1, Sector to September 2, Septembe

Place : Chennai Date : August 30, 2023

Company Secretary & Compliance Officer ACS No. 68102

## यूको बैंक 🚱 UCO BANK

Head Office-II, Department of Information Technology 3 & 4, DD Block, Sector – 1, Salt Lake, Kolksta-708064

NOTICE INVITING TENDER

UCO Bank Invites tender for Engagement of Network System Integrator (NSI) and setting up of Bank's Network Operation Centre (NICC) through GeM portal. For any details, please refer to https://www.ucobank.co https://gem.gov.in

(Deputy General Manager) Department of Information Technology

Date: 31.08.2023

talbros TALBROS AUTOMOTIVE COMPONENTS LIMITED
CIN: L2193HR1956FLC033107
Regd. Office: 14/1, Delhi Maltura Road, P.O. Amar Hagar, Fardabad, Haryana -121003
Tel No.: 0129-2251462, E-mail: Seema\_nareng@ikiros.com Website: www.salbros.com

Regd. Office: 141. Delh Martura Road, P.O. Amer Magar. Faridatout, Harpane - 12003.

Rik. 2019;22:542. E. Email: seems parangilgitheros com Website: www.datbors.com
NOTICE OF 86" ANNUAL GENERAL MEETING.

REMOTE E-VOLTION IN PROFINATION AND BOOK CLOSURE
NOTICE: Is hereby given that the 86" Annual General Meeting (AGN) of the members of the Company will be held in 110 AM, 1873 on Monday 25" September, 223 014 of September, 123 014 of Sept

processing respectively and also from the widelite of National Securities propositiony limited (NSU) at https://www.perding.cat.com.

Pursuant to Section 105 of the Companies Act, 2015 read with Rual 20 of the Companies (Management and Aministration) Ruals 2.04 is as amended from time to time and other applicable provisions of the Companies Act, 2015 and Registration 44 of SERI (Lustria of Companies Act, 2015 and Registration 44 of SERI (Lustria of Companies) and Registration (SERI (Lustria) Registration

The remote e-ording facility will be disabled thereafter.

Any person who acquire states and accourse a member of the Company after Any person who acquire states and accourse as member of the Company after the country of the countr

request all evoling@rsdLook on or seems\_nerang@libros.com.

A Members who have exercised their right to vole through memble a-voling facility may attend the AGM, but shall not be allowed to cast their vote thereat.

The detailed instructions for remote e-voling and e-voting during the AGM have been given in the Notice of 65 AGM.

Mannear or fregistration of e-mail address:

Members who have not registered their e-voling in the Company Depositories are Members who have not registered their e-voling the same field only the deposition of e-mail address:

Members who have not registered their e-voling the same field only the deposition of e-mail address.

The same field of the deposition of e-mail shall be about the deposition of the same field only the deposition of the same field in payers of the same field in th

## Manner of Joining the AGM:

Manner of Joining the AGM:

A facility to join the AGM through VC/OAVM is available through NSDL e-voting portal a www.evoling.nsdl.com. Members are requested to refer to the Notice of 66" AGM fo detailed procedure for login during the AGM.

Istellated procedure for Digith during the ACM.

no seas of any queriprisence regarding evoling or technical assistance for actinguising in the ACM via VCOVVM, members may refer the Fraquently Asket Douchton FRADS for Shereddoes and extrogrues memand So between Observables and with the download section of sweepcoding positions or call on 022-4885 7000 and the download section of sweepcoding positions or call on 022-4885 7000 and section of sweepcoding positions or call on 022-4885 7000 and section of sweepcoding positions or call on 822-4895 7000 and sequential sections of the section of sweepcoding positions or call on 102-4885 87000 and sections of the section of the sec Book Closure & Payment of Dividend

Sussing a rayment or overview.

ant to Section 9 of the Companies Act, 2013, the Register of members and Shara for Books of the Company shall remain closed from Monday, 18° September, 2023 and aday, 18° September, 2023 (both days inclusive) for the purpose of 66° AGM and trainine entitlement of final dividend on equity shares, if declared at the AGM.

For Talbros Automotive Components Limited

(Seema Narang) mpany Secretary

# Barra PHARMAGEUTICALS LIMITED CIN: L24294TN1995PLC030698 \*Bafna Towers\* No.299, Thambu Chetty Street, Chennal-60 Ph: 044-25267517 / 25270992

NOTICE Dispatch of Notice of 28th Annual Ceneral Meeting; Annual Report 2072-233, Renote S-Volting Instructions and Guicel Dispatch of Date.

Notice is hereby given that:

1. The 28th Annual General Meeting ("AGM") of the members of the Company will be held on Friday, September 22, 2023, at 10:25 a.m. IST through Video Conferencing/Other Aution-Visual Means (UC / OAAM) to transact the business as set torth in the Notice of the Meeting dated Aquast 11, 2020.

2022, (In continuation to the circulard Season of the Company of the Meeting dated Aquast 11, 2020.

2022, (In continuation to the circulard issued sealine in this regard issued to Propose Meeting Administration to the circular assued sealine in this regard issued by the Significant of Corporate Affairs ("MCA Circular") and SEBI Circular No. SEBIHO/CEP/DP-02/PCIR/CIRCO244 detel January 90, 2023, issued by the Sanutines Exchange Board of India (herinariather collectively information as a covaling instructions and Annual Report for 2022-23 have been sent on Aquast 30, 2023, to all the members whose e-mail IDs are registered with the Company/IR Indianos and Annual Report for 2022-23 have been sent on Aquast 30, 2023, to ell the members whose e-mail IDs are registered with the working instructions and Annual Report for 2022-23 have been sent on Aquast 30, 2023, to ell the members whose e-mail IDs are registered with the working instructions and Annual Report for 2022-23 have been sent on Aquast 30, 2023, to ell the members whose e-mail IDs are registered with the working of the Company is Indianos and Annual Report of 2022-23 have been sent on Aquast 30, 2023, to ell the members whose e-mail IDs are registered with the Application on the Company is Indianos on e-voting and VC, Illuculpi-u-mails has been currupleted or in Aquast 30, 2023.

1. In terms of Section 103 of the Company is Indianos on e-voting and VC, Illuculpi-u-mails has been completed or in Aquast 30, 2023.

1. In terms of Section 103 of the Company is Indianos on e-voting and VC, Illuculpi-u-mails

The remote e-voting shall commence on Tuesday, September 19, 2023 (9-00a m IST);

virtual m IST);

With the motor evolting shall end on Thursday, September 21, 2023, (5:00 p. IST);

All persons who acquires shares of the Company and becomes member of the Art persons who acquires shares of the Company and becomes member of the control of the

together, a strong vote.

"It Members may not be that," It is monthe sevoling module shall be disabled by "Members may not be that," It is monthe sevoling module shall be disabled by CDSL beyond 5:00 p.m. on September 21, 2023 b) the facility for coling fronging electronic voting system will also be made available during the Annual Center Meeting ("AGM") and the members who have not already cast their votes by remote evoling shall be able to exceeds their right to vote during said AGM through evoluting; and AGM through evoluting; and AGM through evoluting; and AGM through evoluting and the above the allowed change it subsequently, and it per some whose name is recorded in the department on an or septiment for AGM, according to with self-all through solutions and surface produced the according as well as voting during the AGM.

are oepusitores as ori September 06, 2023, (quief dide) pri shall be retilize to availit the facility of remote a confing as well as volting during the AGM. When the remote the confine the confine of t

dotal in Notice.

Molica is also given that pursuant in Section 91 of the Companies Act, 2013, mad with Rules farmed there under and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Dischesture Requirements). Regulations 2015, the Register of Mambras and the Obero Transfer Dooks of the Company will remain closed from Beturdey, 167° September 2023 (Both Ags inclusive) for the purpose of ACM.

For Bathra Pharmaceuticas Imitled.

Self-Company of Company of Compan

(Vishnu V. Kuppa) Company Secretary & Compliance Officer

## PRITISH NANDY

Nation is needly given that the 257 Annual General Meeting (MGM) of the Prints Munch, Communications: Unified with the final of reflecting Specifienter 22 (202 d. 3) at pin Hough Mode Conferenced Other Auto-Viscal means in correlations with the all-applicable previousion of the Compression Act, 2013 and read seen development and all the SEEI (Liefting Obligations of Biochoster Requirements) (Regulations, 2015 near with Circuit No. 1402/00 dates the April, 2003, 2022/00 dates (No. 2003, Circuita No. 3000) dates (Seeinberg 2003, Circuita No. 1402/00 dates (Seeinberg 2003) dates (December 51, 2003, Circuita No. 1402/00 dates (Seeinberg 15, 2003, Circuita No. 1402/00 dates (Seeinberg 2013, Circuita No. 1402/00 dates Seeinberg 2013, Circuita No. 1402/00 dates (Seeinberg 2013, Circuita No. 1402/00 dates Seeinberg 2

plance with the above circulars, electronic copies of notice of AGM and annual report for ol year 2022 23 has been cent to all the chareholder whose amal addresses are registered company! Depository Participants (s) on August 30, 2023. The notice of the 30<sup>th</sup> AGM and report for the financial year 2022-23 are available on the Company's website at rightnendy-own-oun and on-website of BSE Ltd and NEEL 19

Manner of Casting Vote through e-voting:

Pursuer to the purvisions of Section 100 and valles applicable purvisions, if any, of the Companies Act, 2013 and the Emporation Metagogenetic and Administration (Nates, 2014, as senseded and a contract of the Companies of the

# LOTUS EYE HOSPITAL AND INSTITUTE LIMITED

CN: L85110T21997Pt.C007783 Regd.Office: SF No.7701/2. Avinashi Road. Givil Aerodrome Post, Coimbatore – 641 014 Tel: 91 0422 4229900. Fav. 91 0422 4229933 Web: www.loluseye.org E-mail: companysecretary@loluseye.org

Tel. 91 0.422 2.4229900. Fax: 91 0.422 4.229903.
Web: www.lotuseye.org E-main: companysecretary@lotuseye.org

NOTICE TO SHAREHOLDERS

NOTICE TO SHAREH

Send a duly signed request latter to the Registra and Transfer Agent of the Company, the contact details of which is provided below containing the following: 13, Follo No., (b) Name or shareholder, (c) Copy of the share certificate (front and back), (c) Copy of PML and (self-attested), (e) Copy of ADHAR (self-attested) Following additional details documents need to be provided in case of underling blank Account Detail a) Name and Branch of the Bank in which you wish to receive the dividend, Code Name (c) FSC Code, as one of the Canceller (c) MICR book Name (c) FSC Code, as one of the canceller chaque bearing the name of the first shareholder.

For LOTUS EYE HOSPITAL AND INSTITUTE LIMITED

(Sd/-) Acoust Menon

(THIS IS ONLY AN ADVERTISEMENT FOR INFORMATION PURPOSES AND DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER OF SECURITIES FOR SALE IN ANY JURISDICTION, INCLUDING THE UNITED STATES)



LADORADONES UNITED

Corporate Identification Number: L24232HP2002PLC000267

Our Company was originally incorporated as Brooks Laboratories Limited on Annuary 23, 2002 under the Companies Act, 1956, vide Certification of incorporation bearing registration number 2491 lissued by the Registrar of Commenses Punjak, Himachal Pradesh and Chandigarh. We received Certificate of Commenses to Business dated Fahruary 19, 2002, Issued by the Registrar of Companies Punjak, Himachal Pradesh and Chandigarh. There has been no change in the name of our Company since reconcentration.

Registered Office: Village Kishanpura, Nalagah Road, Baddi, Nalagah — 174101, Himachal Pradesh, India Corporate Office: (Address where books of account and papers are maintained): 201. The Burnit Business Bay Off. Andheri Kurfa Road, Opposible Gurt Manak Petral Purni, Andheri East, Municha-00093, Maharahtta, India Tet 022- 69073100; Website: www.brookshas.net: E-mail: Cs@prookshas.net Cortact Percon. Ja Praksah Vilay). Company Servicay and Compliance Officer

BASIS OF ALLOTMENT The Board of Directors of Brooks Laboratories Limited wishes to thank all applicants for their response to the Issue which opened for subscription on August 7,2023 and closed on August 22,2023 and the last date for on market renunciation was August 17, 2023. Out of a total of 2,423 Applications received, 753 were rejected on Technical Grounds. The total number of valid Applications received were 1,670 for 33,32,423 Equity Shares, which was 215,844, of the total Issue in terms of the number of Equity Abares applical. The asport of an openualization with BSE, the designated stock exchange on August 27,0023. The Board of Directors of the Company at its meeting held on August 28, 2023, approved the issue and allotment of Shares. All valid applications have been considered for

. The break-up of Applications is given below (Before Technical Rejection):								
Category	Application	s Reveived	Equity Shares Applied For Equity Shares Allotted					
Category	Number	%	Number	Value (Rs.)	%	Number	Value (Rs.)	%
Eligible Equity Shareholders	2326	96.00%	34,37,782	25,78,33,650	97.81%	14,97,603	11,23,20,225	97.00%
Renouncees	97	4.00%	77,086	57,81,450	2.19%	46,323	34,74,225	3.00%
Total (A)	2423	100.00%	35,14,868	26,36,15,100	100.00%	15,43,926	11,57,94,450	100.00%

2. Basis of Allotment

Category	Number of Valid Applications (including ASBA Applications)	Number of Equity Shares Allotted against Rights Entitlement (A)	Number of Equity Shares Allotted Against additional shares Applied (B)	Total Equity Shares Allotted (A+B)
Eligible Equity Shareholders	32,55,337	11,97,969	2,99,634	14,97,603
Renouncees	77,086	46,323	0	46,323
Total	33.32.423	12.44.292	2,99,634	15.43.926

Total 12,44,292 2,9,834 15,43,925

DISPATCH / REFUND ORDERS: The dispatch of allotment advice cum return distination to the allottees as applicable, will be completed on or before August 30, 2023. The instructions to ASSA Banks for unblocking of funds was given by August 25, 2023. The Isliting application was filed with SES on August 28, 2023. The certify respect of allotment of Equity Shares offered pursuant to the Issue in dematerialised form in NSDL and CDSL, as applicable will be completed on or before August 30, 2023. The Equity Shares allotted to the Applicants with owner to appelled their demater details, have been credited to demant suspenses account. White in months from the Allotment Date, such Eligible Equity Shareshodiers shall be required to send a communication to our Company or the Registrar containing the name(s), Indian address, emal address, contact details and the details of their demater account also now the count also will once out to send or company or the Registrar containing the name(s), Indian dematers, the count also will now the count also will now on send a communication to our Company or the Registrar containing the name(s), Indian dematers, and address, contact details and the details of their demater account also will now on the count also will not be a count and the properties of the send of their meater than the demater account by the Registrar containing the name(s). The carries account to the demater account by the Registrar containing the name(s), Indian dematers and the Registrar (so that the count of the Registrar (so the Registrar) shall, after verification of the details of sea method account to the demater account by the Registrar (so that the Registrar) shall, after verification of the details of sea method account as per (s) above, our Company shall conduct a sale of such Rights Equity Sharesleving in the demat suspense account on the floor of the Stock Exchange at the prevailing market price and market with a sense and market shall are and incidents in class part of t

It is to be distinctly underspood that the permission given by BSE Limited should not in any way be deemed or construed that the letter of offer has been cleared or approved by BSE Limited, not does it certain the correctness or completioness of any of the contents of the letter of offer. The investors are advised to reter to the letter of offer for the full textorion by the bestered cleared on the SSE Limited on page 136.

# It is to be distinctly understood that the permission given by INSE should not in any way be deemed or construed that the letter of offer has been cleared or approved by INSE nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the letter of offer. The investors are advised to refer to the letter of offer for the full text of the

**LINK**Intime

REGISTRAR TO THE ISSUE

Link Intime India Private Limited C-101, 1st Floor, 247 Park, L.B.S. Marg, Vikhroll (West), Mumbai - 400083, Maharashra, India. Tel No: + 91 810 811 4949 Email: brooks.rights2023@inkintme.co.in buvestor\_Griegoner\_Email: brooks.rights2023@inkintime.co.in

tel No: + 91 s11 811 4949 Email: brooks,rights2033@Inkintime.co.in Investor Grievance Email: brooks,rights2023@Inkintime.co.in Website: www.linkintime.co.in SEBI Registration Number: INN000004058 Contact Person: Sumeet Deshpande

# COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER



Jai Prakast Valler Corporate Office: (Address where books of account and papers are Corporate Office: (Address where books of account and papers are Opposite Guru Hanak Petral Pump, Andheri East, Mumbal-400093, Maharastria, India 121: (222-80973100

Applicants can contact the Registrar or the Compliance Officer or the Registrar to the Issue in case of any Pre-Issu Allotment Advice or credit of allotted Equity Shares in the respective beneficiary account or unblocking of funds etc. ie in case of any Pre-Issue or Post-Issue related problems, such as non-reci

All grievances with respect to the issue may kindly be addressed to the Registrar to the Issue quoting full name and address of the First/Sole applicants, email id, contac number, number of shares applied for and Bank Branch where the application had been lodged along with the copy of acknowledgement slip. For BROOKS LABORATORIES LIMITED On behalf of the Board of Directors

WHOLE TIME DIRECTOR

WHOLE TIME DIRECTOR

THE LEVEL OF SUBSCRPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARE ON LISTING OR THE BUSINESS
PROSPECTS OF BROOKS LABORATORIES LIMITED.

Place: Baddi Date: August 30,2023

mbers attending the AGM through VC/OAVM shall be counted for the rum under Section 103 of the Companies Act, 2013. ("the Act") Notice is also hereby given pursuant to Section 94 of the Act, mad with rule 10 of the Companian (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of Listing Regulations, that it register of members and stars transfer books of the Company with remain closed from Saturds September 16, 2023 to Fridge, September 22, 2023 (both spiritudes).

The notice is being issued for information and benefit of all the members of the Company in compliance with the applicable circulars of the MCA and SEBI.

For any e-voting queries, members may contact Mr Rakesh Dalvi at 022-2305654243 or email at helpdesk-evoting@cdslindia.com Members may also email to the Company at

10

नई दिल्ली | गुरुवार, 31 अगस्त 2023 विज़नेस स्टैंडर्ड

हरता/ — पाधिकृत अधिकारी जीकीची विक विकित

RELIANCE रिलायंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

# अधिग्रहण सूचना ((परिशिष्ट IV) नियम 8(3) |

प्रभावत ३ के प्राथवार्ग की और आकुल विमा जाता है। प्रितित की अपूर्णी प्रितित की अपूर्णी "आवारीय शिख पूर्वक के प्रभाव का जग जग की विश्वक वैक्रमिण्डल ४३ वर्ग प्रव कार्यि 280 वर्ग मेरिट हैं जो कि चक्च में १८३ र प्राम परिकार, प्राव्य प्रपान कीले इन्होंक एने प्रभाव परिकारण, प्रथम मेरित 2000 की किए प्राप्त मिन्तुक्त परिवारीय है 1- पूर्व- प्रमाद 10 पूर, प्रथम- मूर्वक प्रीप्त, प्रवित्य- मूर्वक प्रीप्त, प्रवित्य- मूर्वक प्रीप्त, प्रवित्य-व्या : गारियाव्या प्रमाद विश्वक विश्वक मेरित विश्वक विश्वक

श्री	राम हाउसिंग	फाइनेंस हि	<b>गमिटेड</b>	
SHRIR & M	पंजीकृत कार्यालय : य ज्ञास्त्रा कार्यालय : द् म.प्र458001 येवसाइट : www.sh	सरा तल, तिरुपति प्ल	मा नाइकेन स्ट्रीट, घेन्मई-७०० ०८ १जा, रेलवे स्टेशन शेड, मन्दसँ	1.

ज्यांकि अधोहस्ताक्षरी ने विश्तीय आस्तियां का अतिभूतिकरण एथं पुनर्गाटन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधित्रयम, 2002 (कथिन अधित्रयम) के प्रायथानी के तहत श्रीदाम हार्डासेण फार्डनेस लिमिटेड (प्रस्तयपुरुष्ट्र) का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते तथा श्रीसभृति हित (प्रवर्तन) निस्सम, 2002 (कथित निस्सम) के तमाश परित्र कथित अधिनियम को थारा 13(12) के तहत प्रदत्त श्रीसन्त्रों के उपभोग में नीचे तालिका व्यक्ति कर्मवारों को कथित मौग यूचनाओं में उल्लिखित राशि का पुनर्भुगानान करने के लिए मांग पूचनार ज्ञीत की आस्त्रक्ता राहने के काराण एटहारा कर्डदारी तथा कर्मसामान्य को सुचना दी जाती है कि इस्तयपुरुष्ट्रपत का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते अधोहरतावासरी ने कथित निस्समों के नियम ३ के साथा परित कथित आधीतम्यत स्था नियम को यारा 13(4) के तहत नीचे वार्णित बन्धक सम्मित पर 28 असरत, 2023 को भौतिक कक्ता कर नित्र है।

को **भौतिक कब्जा** कर लिया है।

को भारतक केंक्जा कर लिया है। विश्वेष्ठ रूप से कर्जदार को तथा जनसामान्य को एतहारा सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार नीचे वर्णित राशि तथा उस पर व्याज के लिए औराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड प्रभार के

कर्जदार का नाम तथा पता	मांग सूचना के अनसार बकावा गशि	सम्पत्ति का विवरण
श्री संतीप पाटीदार पुत्र श्री समसुख     रा. श्री रामसुख पाटीदार पुत्र     श्री वापू लाल एवं     श्री वापू लाल एवं     श्री श्री पाटीदार पत्नी     श्री रामसुख     पता : वार्ड नं, ०,९ पाटीदार     ग्रीहल्ला, ग्राम-सिद्धपुरा,     प्रतापातु, राजस्थान-312515     ऋण खाता संख्या     SHLHMIDSR0000158	07.06.2023 तक बकाया एवं देव रु. 4,44,647/- (रुपये चार लाख चौवालीस हजार छः सौ सैतालीस मात्र) सूचना की तिथि : 08.06.2023	फ्रीहोल्ड आयापीय प्लॉट नेबर 73, एकता नगर कॉलोनी, ग्राम बागवास, त्रहासीलपूर्व डिवाग गजस्थान, माप 800 वर्ग फीट प्रीमण्डं - प्रतीप रेड परिचम प्लॉट नं. 62 उतन : प्लॉट नं. 62 उतन : प्लॉट नं. 72 दिक्षिण : प्लॉट नं. 72

प्रतिभत आस्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदार का त्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की और आकर्षित किया जाता है : प्रतापगढ़ (राजस्थान) इ./=अधिकत पाधिकार्र श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

## 66वीं वार्षिक आम बैठक.

रिमोट ई-वोटिंग जानकारी और बुक क्लोज़र की सूचना

सकता है। प्रदेश में निर्मार ई-बोरिंग द्वारा बोट देने के अधिकार का प्रयोग कर चुके हैं, एजीएम में उपियान हो सकते हैं, राहुं जनको उसमें बोट सानने की अनुमति नहीं होगी। ८ वहीं एजीएम की प्रयान में दिना ई-बोरिंग तथा एजीएम के दौरान ई-बोरिंग हेतु विस्तृत अनुदेश दिए गए हैं। देनी चल के पंजीकरण की विचि:

- नात पत के प्रजीकरण की विधि: जिन प्रदारण ने जपनी ई-मेंट आईडी ज़ कमानी / डिपॉज़िटरीज के पाप पंजीकृत नहीं कर दें उनसे अनुरोध है कि वे इतेव्हॉनिक रूप में धारित शंबरों के स्वेध में उसका पंजीकरण व अपिडिटरी प्रीमानी के पास और मौतिक रूप में धारित शंबरों के संबंध से बोह्मexkugklininsch.com अपवाseema\_narang@labros.com को तिखकर करता हो। स्वीधा के अपने की किस एजीएम से जड़ने की विधि :

कृते टातबोस ऑटोगोटिव कम्पोनेंट्स तिगिटेट

हस्ता / — (सीमा नारंग) कम्मनी सनिन **दिनांक: 30–08–2023** 

## गणेशा इकोवर्स लिमिटेड

arar raeg ara, reeen - 11000r verse@gmail.com वेबसाईट : w फोन न०- +91 9415108158

# 20वीं वार्षिक सामान्य सभा व ई वोटिंग की सूचना

दृद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी की 20वीं वार्षिक सामान्य सभ वार 28 सितम्बर 2023 को अपरान्ह 01:00 बजे वीडियो कानक्रेन्सिंग(VC)∕

गुरुवार 28 सिंदानस् 2023 को आपरास् 01:00 वर्ज वीशिक्षी काम्केरिया(VC)/ वीरियो विज्ञुवार गाम्या (OXM) के गाम्या वो आपोर्स की जायेगी। कारपोरेट कामकाज मंत्रात्व (एमसीए) द्वारा जारी परिपक्र दि 028:12 2022,05.05,2020 13.04.2020 में 00.40.200 तथा सेवी द्वारा जारी परिपक्र के 60 5.01.2023 13.05.2022 य 12.05.2020के जनुपावतन के तहत. कंपनी की वार्षिक सामान्य समा की सूचना एवं वित्तीय वर्ष 2022—23 की वार्षिक रिपोर्ट्स कार्यों के पित्र प्रकार की स्थान पार्था, जिनके ईसिक प्रदेश कार्यों के पंजिद्धार (जिल्हा के प्रकार की को जा जाएंगी, जिनके ईसिक प्रदेश कार्यों के पित्र प्रकार की स्थान वित्तीय के गास पंजीवृत्त हैं । उपरोक्त बस्तानेक कार्यां की वेबताइट www.ganeshaecoverse.com पर और NSDL तथा BSE की वेबताइट https://www.worting.nsdl.com वर www.bseindla.com पर भी उपलब्ध होंगे। पुरु सूचित विवार जाता है कि: 1. वार्षिक सामान्य समा की सूचना में डीमेंट मोड, किंग्रिकक सोड में शेयर स्थाने वाले सामान्य समा की सूचना में डीमेंट मोड, किंग्रिकक तो डी मेंश्वर स्थाने वाले सामान्य समा की सूचना में डीमेंट मोड, किंग्रिकक तो डी मेंश्वर स्थाने वाले सामान्य साम की सूचना में डीमेंट मोड, किंग्रिकक तो डीमेंट मोड, किंग्रिक सीचन मेंश्वर स्थाने वाले सामान्य साम की सूचना में आपन स्थान के स्थान स्थान के स्थान स्थान की स्थान सिंप स्थान की स्थान स्थान की सामान्य साम की सूचना में डीमेंट मोड, किंग्रिक सीचन सीचार की स्थान सिंप सीचार सी

जावक साना परामा के पूर्णमां निकार माह माह माह सान एवं वाले सदस्यों और जिन सदस्यों ने अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं किये हैं उनके लिए रिमोर्ट ई-वॉटिंग, VC/OAVM के माध्यम से समा में शामिल होने तथा सभा में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बोट करने का तरीका प्रदान किया

तथा समा में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बोट करने का तरीका प्रदान किया जाएगा।

फिजिकल मोड में शेयर एखने वाले सदस्य जिन्होंने कंपनी में अपने ईमेल पते को अपनेट - मेंडे किया है, वे कंपनी के आरटीए, मेसर्स विम शेयर सर्विर्धेक प्राइटेट सिन्टिंड को Bsadahi@bigsharaonine.com पर विधिवत समुदेट सिन्टिंड को Bsadahi@bigsharaonine.com पर विधिवत इस्ताझरित अनुरोध पत्र जिसमें शेयरखारक का नाम, फोलियों में, पता और इंग्लिंड का सहिंदी का उल्लेख हो सेलक अर्दरेट मैंन कार्ड की किंगी के साथ भेजकर, अपने इंग्लिंड कार्य कार्ड कर सकते हैं। डीमेट मोड में शेयर रचने वाले सदस्यों से अगुरोध है कि वे अपने डिपॉफिटर की पार्टिसिपेंट के पास अपना इंग्लिक प्राप्त की अर्था के अपने डिपॉफिटर की पार्टिसिपेंट के पास अपना इंग्लिक प्राप्त की अर्था के अपने डिपॉफिटर की पार्टिसिपेंट के पास अपना इंग्लिक प्राप्त की अर्था के अपने डिपॉफिटर की पार्टिसिपेंट के पास अपना इंग्लिक प्राप्त की किंग्लिक पार्थ की अर्था की अर्था के अर्था डिपॉफिटर की पार्टिसिपेंट के पास अपना इंग्लिक प्राप्त की अर्था के अर्था डिपॉफिटर की पार्टिसिपेंट के पास अपना इंग्लिक प्राप्त की अर्था की अर् ईनेल पता पंजीकृत करें।

कृते गणेशा इकोवर्स लिमिटेड (नेहा गजवानी)

स्थान- कानपुर दिनांक: 30.08.2023

प्राप्त करायित हैं जो अधिकृतिकर एवं पूर्ण के प्राप्त करायित हैं जिस के अधिकृतिकर के प्राप्त के क्षेत्र के अधिकृतिकर एवं पूर्ण के एवं ते अधिकृतिकर एवं पूर्ण के एवं ते अधिकृतिकर एवं पूर्ण के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त कर प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त कर प्राप्त के प्राप्त कर प्राप्त के प्राप्त कर प्राप्त

家. ゼ.	ऋण सं.	कर्जदार/सह- कर्जदार/जमानती/बंधककर्ता	13(2) की सूचना तिथि√तिथि तक बकाया राशि (रू. में)	तिथि /समय तथा कठजे का प्रकार
1	45129660002171	1) मैसर्स राघव पेटोकेम प्रा.	22.03.2023	तिथि:
ı	45129660002540	लिपिटेड का प्रतिनिधित्व इसके	₹. 3,48,79,756/-	30.08.2023
ı	45128640001538	प्रोपराइटर श्री राकेश कमार	(रुपये तीन करोड़	समय :
ı	तथा	छावडा द्वारा, 2) श्री राकेश	अड़तालीस लाख	02:10 মুজ
ı	4512020000412010	कमार छायडा (कर्जदार), 3)	उन्यासी हजार सात	अप,
ı			साम्बन्धन सात्र)	सांकेतिक
ı		श्री राघव छाबड़ा (गारटर), 4)	तिथि 15-03- 2023	कस्जा

भी पर्याप्त आपके (१८९८८), की | विशेष १५-०३-२०३३ | कहना भीती बेला करवात (भारतर) | तर कि प्रतिकृत संपत्ति का विकास: अपं निर्धांत सम्मित पूमि मात्र ३६० वर्ग गत, स्वस्त संस्त्र १३ में नेतन दा रिवार्तित संस्त्र का प्रतायदार, वैस्तित्व, दिस्सी में सिम्बा औ वर्तक कुमा प्रवाद पुत्र को नेतन दा राज्यांत संस्त्र के सामित में मात्र प्रताय है पूर्ण कर के प्रतास ४३२, पश्चिमः प्यारंट संबर ४३१ का सोच साम उत्तर: प्यारंट संबर ४१७, प्रतीम: सहस्त्र ४३ मीट चीड़ा।

आस्तिमाँ से कोई संव्यवहार न करने की व साथ कोई संव्यवहार जना स्माल फाइनेंस	वेतायनी दी जाती है और उपयुंबत सम्पत्तिगं/प्रतिभूत आस्तिग वैंक लिमिटेड के प्रभार के अध्यधीन होगा।
स्थान : दिल्ली रा.रा.क्षे.	ह./- अधिकृत प्राधिकारी
तिथि : 31.08.2023	जना स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

जना स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

w.JJ श्लीकृत कार्यालयः द फेरमयो, भूतल एवं प्रयम तल, सर्वे नंद (०/१, 11/2 और 12/2की, अं प्रोम्प्स, कोरमाला इस रिप रोड, इंजीएल विकास पासे के बचल में, चल्लापट्टा, वैगली-5600 ताला कार्यालयः 16/12, दूसरी पीजल, डब्ल्युईए, आर्च समाज रोड, करोल बात, नई दिल्ली -1100

## BAG बी.ए.जी. फिल्म्स एंड मीडिया लिमिटेड

किया जाता है कि बी.ए.जी. फिल्म एंड मीडिया तिमटेड (फंप्पी) न म बैठक (एजेपी) का आयोजन, बुबबार 27 रिसर्ट 2023 को उ मोडियो कोम्प्रेसिंग (बीमी)/अग्य ऑडियो चित्रुस्त साथनी (ऑप्सीए मनकारिता के दिये प्रसारित की जा रही एजीएम की सूचना में निर्धारिता नेये किया जायेगा।

वहीं बार्किक वार्य केक ('एउंगिपर') का आर्याचन क्षावर 27 जिस्तर 2020 को जा, 420 को अप्रेस्टरिय अस्परिक्त कर विकास के अप्रेस्टरिय अस्ति के अस्ति के

गण्या तथा एक्पाएम (एक्पाएम व पहल आर फ्राएम के दारान) से सर्वार कानवार है. तो आर फ्राफ्सक्टरांक्ना क्रांतिहाला के वारानांक्षर अनुमान पर करावस्व को अक्टर पूर्व जाने वाले प्रकर (एक्पाएम्) और वेगरकारकों के लिए ई-वॉटिंग एक का संवंत्र ते सकते हैं अवारा टॉट्ट-क्रिंग कर का संवंत्र ते सकते हैं अवारा टॉट्ट-क्रिंग के एक्टरांक्ड 700 एवं विटर के एवं विटर के एक्टरांक्ड 700 एवं विटर के एक्टरांक्ट 700 एवं विटर के एक्टरांक्ड 700 एवं विटर के एक्टरांक्ड 700 एवं विटर के एक्टरांक्ड 700 एवं विटर के एक्टरांक्ट 700 एवं विटर के एवं विटर 700 एवं विटर 700

# (अचल संपत्ति के लिए)

बी रखना बाहती हैं । किसी का भी इस पर शंधक 7 दिनों (प्रकाशन दिवस सहित) के भ इत आपत्तियों के साथ अधोहस्ताक्षरी से संपर्क (न्यभा यह माना जाएगा कि इस बंधक पर

NOTICE INVITING TENDER NOTICE INVITING TENDER
GREEN VALLEY CGHS LTD, invites
Sealed Item Rale Tender from eligible
Contractors for Installation, Recipitation, Upgradation/ Modification of
Fire Fighting Systems, Fire Alam
Systems and Public Address Systems
at Plot No.18, Sector > 22, Dwarka,
N e w D e I h i 11 0 0 7 7.
Tender document can be purchased
from the office of GREEN VALLEY
Cooperative Group Housing Society
Ltd. situated at Flot No. 18, Sector No.
22, Dwarka, No ebh I -110077 from
10.30 AM to \$5.30 PM orly working
days on payment of Rs, 2,0001
(Rs, Two Thousand only) (Non
freundschild) from Dand Sept 2023 to
18th Sept 2023.

# कब्जा सूचना

DCB BANK

. गंधजी जीव्यीकी वेंट जबकि आंधारुतावारी सीमीर्य कि लिमिट्न का प्राणिवान आधिकारी कोन के माने, लिमिय सम्पामियों के प्रमिन्नृतिकला पूर्व पूर्वानियां और प्रतिसृति दिव (इस्स्रोध्यमी अध्योद्धः 2002 (2002 का अध्योदां के ) और प्रतिनृति दिव (प्रवर्तन) हमानवारी, 2002 की आपता 5(2) के अस्त्राचित या के आंधारे प्रता विश्वानियां के प्रति के स्वार्य के अंधारे प्रता विश्वानियां के प्रति के स्वार्य के अंधारे प्रता विश्वाने प्रता हमानवारी के प्रति हमानवारी के प्रता हमानवारी के प्रति हमानवारी के प्रता हमानवारी का हमियां के प्रता हमानवारी के प्रता हमानवारी के प्रता हमानवारी के स्वार्य हमानवारी के स्थित हमानवारी हमानवारी हमानवारी हमानवारी हमानवारी के स्थानवारी हमानवारी हमानवा

		Additional to the Section	I di di di di di di di di di	T	Total I GI III
क्र. सं.	अनुबंध सं.	कर्जबार, राह-कर्जबार, गारंटरों और कानूनी चारीसों का नाम	मांग सूचना की राशि और दिनांक	संपत्ति का विवरण	कब्जे की दिनांक
1.	DBLACHKUU4U9124 और DBLACHK00442680	बलविंदर वर्गेर (अब मृतक), बजविंदर क्रीर (राह-कर्जवार/कानूनी वारिराॉ) और शुरुवरण सिंह (सह-कर्जवार/कानूनी वारिसॉ)	27,04,2023/ रुपये 4,55,315,46/- 27,04,2023 तक बकाया	मकान सं. २७३, वार्ड सं. १०. भूमि मापक ४.५ गरला पर संपत्ति, ग्राम अगोंच, तहसील गुल्हा, चीका, हरियाणा–136034	26-08-2023
2.	DBLACHK00412470	बलवीर सिंह, बंटी राम और कमला देवी	16.05.2023/ रुपये 2,80,938,02/- 16.05.2023 तक बकाया	भूमि मापक १३ मरला २ सरसई पर संपत्ति भकानग्राम मुना, चीका हरियाणा—१३६०३४	26-08-2023
3.	DBLACHK00405422	देनेन्द्र सिंह, सुखनितर कौर और प्रताप सिंह	12.04.2023/ रुपये 5.22.107.11/- 12.04.2023 तक बकाया	प्रताप सिंह पुत्र हरनाम सिंह पुत्र झंडा सिंह, ग्राम रामदासपुर सेर तहसील गुल्हा, जिला कैथल , चीका हरियाणा—136034	26-08-2023
4.	DBLACHK00406618	श्री हरपाल सिंह, बलबीर कौर और बोउ सिंह	30.11.2022/ रुपये 4,60,747.87/— 30.11.2022 तक बकाया	मूमि मापक 1के—4.5 एम या 24.5 मरला पर संपत्ति, ग्राम तारनवाली, तहसील गुल्हा, जिला कैथल, चीका, हरियाणा 136034	28-08-2023
5.	DBLACHK00429364	श्री बलदेव सिंह और अमनदीप कौर	21.12.2022/ रूपये 3,12,622.65/- 21,12,2022 तक बकाया	भूमि मापक १के–२ एम या २२ एम पर संपत्ति, गकान, ग्राग तारनवाली, गरतगढ़, तहरील गुल्हा, चीका, जिला, कैथल, हरियाणा– 136034	28-08-2023
6.	DBLAPEH00545974	श्री मनीष कुमार, ममता देती और माही पाल	19.04.2023/ रुपये 6,81,114/— 19.04.2023 तक बकाया	मूर्मि मापक 68.06 वर्ग गज, खेवत सं. 188, खतौनी सं. 227, खरारा सं. 711, गकान रिथत पोस्ट ऑफिस के पास. गाम केवरक, तहसील और जिला कैथल, हरियाणा—136027	28-08-2023
7.	DBLACHK00409377	सुश्री शांति कौर, सीमा गोहत्रा, बलविंदर गोहत्रा और परमजीत सिंह	02.05.2020/ रुपये 17,24,639.62/- 02.05.2023 तक बकावा	मकान सं. 661, भूमि मापक 150 वर्ग गज पर, वार्ड सं. 4, पेडुवा, जिला कुरुक्षेत्र, चीका, हरियाणा—136034	28-08-2023

**ार्चालय :** एसेट केयर एंड रिकंस्ट्रक्कन एंटरप्राहुज लिमिटेड, दुसरी मंजिल, मोहल देव बिल्डिंग, 13, टॉल्स्टॉय मार्ग, नई दिल्ली -गंबर : 1504, बी चिंग, वन बीवेसी, रेकियस बेबतपर्स, प्लॉट गंबर : सी-66, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेबस, मुंबई - 400

दिनांक : 31.08.2023 स्थान : दिल्ली एनसीआर और हरियाण

## माँग सूचना

## वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अनुच्छेद 13(2) के अंतर्गत (यहाँ इसके बाद इसे 'अधिनियम' कहा गया है).

एसंट केघर एंड रिकंस्ट्रक्शन एंटरप्राइज लिमिटेड (एसीआरई–109–ट्स्ट) के अधिकृत अधिकारी ने आरपीएडी के माध्यम से सभी ऋणी/यों/गारंटर/रीं और गिरवीकर्ताओं को अनुसंबंद 13(2) के अंतर्गट पहले ही गाँग सुस्ता जारी कर दी थी, तिसार्ग सुस्ता आगि से 60 दिनों के गीतर जल्लेखित तालि की गाँग की गई थी. हालाँकि, उक्त सुस्ता को लगी आग्रकारोजों को जारपीएले के गायम से नहीं गेजन जा सकत, इसलिए बह अकारन किया सथा है.'' इसलिए, हम नीचे संख्य सूचना में उल्लेखित शांति को इस पेसर अधिसूचना की तिथि से 80 दिनों की अवधि के मीतर माँग सूचना की तिथि से मुशतान या वसूखी तक के अतिरिक्त व्याज पुने अन्य शुक्तों के साथ एसेट नेपार पृंद रिकेस्टनशम पंटयााइज किमिटेड (एसीआरई-109-ट्स्ट) को नुकाने का अनुरोध करते हैं. गरि आप इस सुनान की शतों के अंतर्गत अपने ट्रांगिकों का निर्महन नहीं करते हैं, तो हम अधिनियम की थारा 13(4) या धारा 14 के अंतर्गत प्रदत्त सभी या किसी एक अधिकार का प्रयोग करने के लिए बाध्य होंगे. यह अधिनियम और/या समय-समय पर लागू किसी अन्य

সহত্য	ऋणी/यों एवं	नाँग सूचना दिनांक / एनपीए दिनांक / बकाया राशि			
खाता संख्या	सह-ऋणी/यों का/ के नाम	एनपीए दिनांक	वकाया राशि	अचल संपत्ति (गिरवीकृत) का विवरण	
H1459119041 8051652 & H1459119041 8051652L	सोनू आधाल     मस् आधाल     सस् आधाल     उन्से अधाल     स्वामी सोनू अध्याल     स्वामी सोनू अध्याल के माध्यम से।	मांग सूचना दिनांक : 01/08/2023 एनपीए दिनांक : 04/05/2019	(फ.) को कुल राशि क. 28.10,245.45/- (अड्डाईम लाख दस हजान दो सी पैतालीस रुपए और पैतालीस पैसे), रिनाक 27/06/2023 को	अनुसूची -। (प्रतिसूचित संपत्ति के विकल) संपत्ति के सभी दुलाई और अंग, स्थित संपत्ति के विकल) संपत्ति के सभी दुलाई और अंग, स्थित संपत्ति के कि आदिता है। यह स्थान स्थान कि अधिक के कि तता था है। कि आदिता कि तता है। सन्दर-228, यमुना एस्सासस्य, गीतम बुद्ध नगर, एसर प्रदेश, 201301 पर स्थित है।	
H1459111081 8014325 & H1459111081 8014325L	सिवन कुमार     आधी     सिवन प्रनास्तिक एंद्र इंजीनियरिंग वर्ष्स (इसके स्वामी सचिन कुमार के माध्यम सं)	मांग सूचना दिनांक : 01/08/2023 एनपीए दिनांक : 04/05/2019	कुल शशि रु. 30,66,172.12/- (शीस लाख विम्यासव हजार एक सी बतत्तर और बारज पैसे) 27/06/2023 तक	अनुसूची -। (मिनिपूनित संपत्ती का विकला) पंत्रीय के प्रामी दुमाई और अंग, निरमश का है, श्लैय में, 12द -9, निपसी माप 645 वर्ग कीट है, य विकेशन मामक विशिष्ठ के 12दें - एस पर है, जो कि ओएसिस डैक्टर्ड, जीएस-01, डीस्स 01मी, तेक्टर 22की, मुग्ना एसफोर से, गीयम बुद्ध गयर, जार प्रमेश, 201001 पर स्थित है	
H1364710041 H123931 & H1364710041 H123931L	संहिता चयवाँधरी     मो. तालिब	मांग सूचना दिनांक : 01/08/2023 एनपीए दिनांक : 04/08/2019	कुल राशि रु. 45,04,200.32/- (पैतालीस लाख चीरासी हजार दो सौ आठ रुपए और बगीस पैसे ) 27/06/2023 तक	अनुसूचि-। (प्रतिभूतित समिति का विदरण) संपत्ति के सभी दुषक्टे और अंग्र, निस्तका बाता है : क्येट मं. 405, निस्तकी मात्र 1295 वर्ग कीट है, जं वेजेनियान नामक ब्रिनियों के स्त्रीय त्वर पत्र है, जो कि आपेतीस ग्रॅंसरन्ट, जीएव-01, नीप्रस-01वीं संबदर-22डी, ग्रमुना एक्सोसबे, गीतम बुद्ध-मार, जसर प्रदेश, 201301 पर स्थित है	
H1497724051 8011648 & H1497724051 8011648L	1. अजहर हुसैन 2. जास्मिन हुसैन	मांग सूचना दिनांक : 01/08/2023 एनपीए दिनांक : 04/07/2019	कुल राशि ए. 46,11,136.71/- (छिपालीस लाख म्यारह हुनार एक सो छत्तीस रुपए और इकहत्तर पेसे) 27/06/2023 तक	अनुसूर्यी - ( (प्रतिसूर्यित संस्ती का विदल्त) संगति ने सर्यी हुलड़े और अंग, नियनना गता है। लॉट मं 1206, नियननी याग 1206 नर्ग गीट है, जो वैसेरिया नामक विस्तित के 12वें तास पर है, जो कि ओएसस वैदल्डेंट, जीएस-01, टीएस- 01वी, सेस्टर-92वी, समुना एक्सप्रेसचे, गीतम ब्रुट नगर, जल प्रदेश, 201301 पर स्थित है.	
H1395322051 8012624 & H1395322051 8012624L	1. मो. सरफराज खान 2. गुलिश्ता पश्चीन	मांग सूचना दिनांक : 01/00/2020 एनपीए दिनांक : 04/06/2019	कुल सांति रु. 44.08.057.38/- (प्रचाणीत लाख आठ हजार सत्ताचन रुपर और अड़तीस पैसे) 27/06/2023 को	अनुसूरी—। (जिप्सियोक्त क्षेत्री का विश्वकार) संभीति के सभी दुकड़े और अंत, निस्ताव मात्री हैं स्थेतं ने 1400, जिसकी मात्र 1295 वर्ग सीट हैं, जो देखींका नामक विश्वके के 14वीं यह तर हैं, जो कि और्रोत्तर क्रिक्टेंड, जीवन-जो, टॉलर- जो हैं, तैस्तर-टेडरेंड, नुसार क्षारोजों, नीमक दुक्त तर, जार स्थेत 70, 300, अस्त निर्देश हैं	
H1536816071 8024453 & H1536816071 8024453L	1. अंशुल गुना 2. कमलेश गुना	माग सूचना दिनाक : 01/08/2023 प्रनामित शिनांक : 04/07/2019	कुल राशि रु. 67,81,423.88/- (सइसठ लाख इक्यासी हजार चार ची नेर्देश रूपर और अझसी गैंगे) 27/06/2023 तक	अनुस्ती-। (प्रतिप्तित संपत्ति का विकरण) संपत्ति के सभी दुवाई जोर अंग, निसंका सत्ती है स्वर्गट ने, 1.05, निसंकी मान 1990 वर्ग सेंग्ट है, जे वेतेरिया मानक विकित्त के पहले तवा सहे, जो कि जोशीलत ब्रिक्टर्ड, जीएम-01, टीएस-01बी, सेंबटर-22की, ब्युना एक्सोस्सरे, गीमा बुद्ध-मार, जार प्रदेश, 201301 वर स्थित है	
H1463122021 8031235 & H1463122021 8031235L	1. संतपाल दुगल 2. शशि दुनल	मांग सूचना दिनांक : 01/08/2023 एनपीए दिनांक : 04/10/2020	कुल राशि रु. 25,35,295,81/- (पश्चीरा लाख पँतीरा हजार दो सौ पचानवे रुपए और इक्यासी पैसे) 27/06/2023 को	अनुसारी-। (प्रतिनृतित संपत्ति का विकल्ण) संपत्ति के सभी टूकड़े और अंग, जिसका बात है: चलैर में 1110, जिसकी मार 995 को फीट है, जे केरिया गामका विश्विक के 11वें तर पर है, जो कि जोशीला बैंबरटी, जीएर-01, टीएर-01की सेक्टर-22टी, प्रमुता एक्सोमांचे, तीराम बुद्ध मार, जार प्रदेश, 201301 पर स्थित है	
DELHL180002 40 & DELHL180003 92	1. मो, सार्देकीन 2. अमीना	मांग सूचना दिनांक : 01/08/2023 एनपीए दिनांक : 05/12/2020	कुल राशि रु. 31,06,287.07/- (इक्तीस लाख छह हजार दो ती सत्तामी क्या और मात ग्रेम) 27/06/2023 तक	अनुस्पी-। (प्रतिपृत्तिक संपति का विकरण) संभीति के सभी दुवाई और अंग, निरावण था है : सर्वर ने . 1104, निरावणे भाग ४७५० वर्ग भीट है, जे वेतेरिका मामन विक्तिय के 11वें वाद सर्व, हैं जो कि औरसिल क्रिस्टर्ड, लीएच-01, टिस्स-01की, सेसटर-22के, म्युना एक्सोन्नोंचे, जीतम बुद्ध मार, जसर प्रदेश, 201301 पर स्थित है	
H1506931011 8091957 & H1506931011 8091957L	- রীতক বিঁচ     - বিআ     - বাআ     - বাআ     - বা	मांग मूलना दिवांकः: 01/08/2023 एनपीए दिनांकः: 05/12/2020	कुल वाशि रू. 36,14,086.94/- (पैतीस लाख चीदह हजार पवासी रूपए और चीदगढ़े पैसे) 27/06/2023 तक	अनुसूरी-। (प्रात्तपुरित संपाद का विकरण) स्पत्ति के सभी दुकडे और अंश, निसका पता है: पतेट न. 806, निसकी मान 1295 को फीट है, जे वेतिस्या नामक बिस्कित के छंडे तत पर है, जो कि ऑप्सिस ग्रॅंडस्टर, जीएए-01, टिएस-01वी सेवटर-22डी, यमुना एक्सकेस्थे, नीतम इद्ध नगर, जार प्रदेश, 201301 पर स्थित है	
H1265511121 7011101 & H1265511121 7011101L	कपिस के बागडी     अचला अस्थाना	मांग सूचना दिनांक : 01/08/2023 एगपीए वितांक : 06/04/2021	कुल रात्रि रु. 57,18,180.57/- (सत्तावन लाख अठारह हजार एक सी अस्ती रुपए और सप्तापमा पैसे) 27/06/2023 तक	अनुसूरी-। (प्रतिपृतित संपत्ति का विबरण) सम्पत्ति कं समी हुळा डे डॉड डॉड डॉड डॉड डॉड डॉड डॉड डॉड डॉड	
H1453407071 R020551 & H1453407071 B020551L	1. हिमांशु चीधरी 2. करी मेट्यानत	मांग सूचना दिनांक : 01/08/2023 एनपीए दिनांक : 04/06/2021	फुल राशि रः. 38,40,642.39/- (अइतीस नाख गानीस हुनार छह सी बयानीस रुपए और उनतासीस पैसे) 27/06/2023 को	अनुसूची-। (माजियुनिय सम्मी जन जिज्ञान) संगति के समी दुलके और ऑह, निस्तान पता है : युनिट ने, आ२०23शी31905 फर्नेट ने टॉबर/ब्सॉक 1905/सी3, विस्तानी मार्ग 1515 वर्ष स्टिट है, जो अस कंट्री-नामक ब्रिटियां के 194 तत पर है, जो कि टॉपल-1, संयटर 17ए, यमुना एक्सप्रेसको, उत्तर प्रदेश, 201303 पर स्थित है.	
H1438228061 8054516 & H1438228061 8054516L	अनुज चतुर्वेदी     अबुज चतुर्वेदी     अबुज चतुर्वेदी     विश्वज हॉस्पेटालिटी     सर्विसेस (इसके स्वामी     अनुज चतुर्वेदी के गाध्यम से)	मांग शूचना दिनांक : 01/08/2023 एनपीए दिनाक : 04/08/2021	कुल शारी ए. 33,55,523.32/- (तैतीस लाख छग्पन हजार छह सौ तेइस रुपए और बत्तीस पैसे) 27/06/2023 तक	अनुसूची-। (प्रतिपृत्तिक संगति का विकरण) संगति के सभी हुळाई और अंक, जिलका का विकरण) रेकिंग /क्षार्थ 5450/पाई विंगा, विस्तरी बाप 565 को चीति है, यो गीर्थ आई नामक विशित्ते से वर्ष कर माने की कि जीएव 01/ए, सेक्श 74, नोगटा, निस्ता गीलग चुळ वणा, जबर प्रदेश, 201301पर स्थित है.	
H1453404101 0025906 & H1453404101 9025906L	जलेश मिश्रा     दुभवुभ भिश्रा     अर्गव ग्लास कं. (इसके स्वामी जतेश मिश्रा के माध्यम से)	मांग स्तृतना दिनांक : 01/08/2023 एनपीए दिनांक : 04/09/2021	कुल राशि क. 48,76,608.92/- (अइतालीश लाख क्रियार हुगार छह सौ आठ कपए और बानमे पैसे) 27/06/2023 तक	अनुस्तीन। (अतिभूतित संबत्ति का विचरण) संवति के बागी टुकड़े और अंत, जिला को है। युक्ति नो, आ0270एवई1531, वर्नेट में टॉकर/सरका 1531/पाई सेंट्स, जिलाकी मार 535 वर्ग मीट है, वो नाथ वाई नामक ब्राह्मा के 1वीं जब पर है, जो कि वीएव-01/ए, सेन्टर 74, मीटम सुद्ध, नगर, वार प्रदेश, 201300 पर व्यक्ति है	
H1395314021 8020248	1. नविता तलवार 2. स्वाति मेहरा	माग सूचना दिनाक : 01/08/2023 एनपीए दिनांक : 05/04/2021	कुल राशि रु. 86,39,248.36/- (छिमासी लाख जनतालीस हगार दो जो अहतालीस रुगए औ छत्तीस पैसे) 27–07–2023 को	अनुसूर्या - (प्रतिप्रतिष्ठ के विकास के किएक) दंगित मुक्ति के कार्यो कुल दे जीर मंग, निजक गात है। सुवैद वे. मारा 18-वीं 10001 /गर्नेट वं. 201, दूसरे इत पर, जिसकी मार सुन्त एरिया /201, वर्ग कीट हैं, टॉक्टर स्टॉक - जीर /जीर, ईकी विरोज - 1 गामक परियोगमा, जो स्पॉट गं. 0, सेक्टर 1, तील मुद्ध गगर, कार प्रस्ते, 201000 रा स्थित हैं	
H1395418071 8020009	1. मोहित 2. भूलचेंद	मांग सूचना दिनांक : 01/08/2023 एनपीए दिनांक : 04/06/2019	कुल राशि रु. 23.90.373.72/- (पेईल लाख गब्धे हजार तीन ती तिहतर रुपए और बहतर पैसे) 27-07-2023 को	अनुसूर्या — (अभिगुभित संभी का शिवण) संगति के समी टुकडे और जेश जिसका बात है नोनाना-परंट मं. 12ए-04, जिसकी मात्र 696 वर्ष फिट है, जो ओज़ीसा ईक्टरेड, प्लीट नं. औहन्य-11, टीएस-U1बी, सेक्टर-22डी, व्यून एक्सकेलों, जेला हुम्म, एका रुपेस, 20,303 पर स्थिया है	

आपकृत्व अधिकारी anuj.sharm@acreindia.in एसेट केयर एंड रिकंस्ट्रकान एंटरपाइज लिमिटेड के लिए (एसीआरई 109 ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में कार्यस्त)